


**RAMA PHOSPHATES LIMITED**  
Regd. Office: 51/52, Free Press House, Nariman Point, Mumbai-400 021  
Tel.No.: (91-22) 2283 3355/2283 4182; Fax : (91-22) 2204 9946  
Email: compliance@ramaphosphates.com  
Website: www.ramaphosphates.com  
Corporate Identification No.: L24110MH1984PLC033917

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given, that the Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, the 14<sup>th</sup> day of February, 2023** through Video Conferencing Facility, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months period ended 31<sup>st</sup> December 2022.  
The information is also available on the Company's website at [www.ramaphosphates.com](http://www.ramaphosphates.com) and on the stock exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)  
**For Rama Phosphates Limited**  
**Place : Mumbai**  
**Dated : February 03, 2023**  
**Bhavna Dave**  
**Company Secretary**



**balkrishna industries limited**  
CIN : L39999MH1961PLC012185  
Regd. Office : - B-66, Waluj MIDC, Waluj Industrial Area, Aurangabad - 431136, Maharashtra, India.  
Tel No. +91 22 6666 3800 Fax: +91 22 6666 3898/99  
Website : [www.bkt-tires.com](http://www.bkt-tires.com) E-mail: [shares@bkt-tires.com](mailto:shares@bkt-tires.com)

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Saturday, the 18<sup>th</sup> February, 2023 as record Date for the purpose of ascertaining the eligibility of the shareholders for payment of 3<sup>rd</sup> Interim Dividend on equity shares for the financial year 2022-23 to be declared at the Board Meeting of the Company to be held on Saturday, the 11<sup>th</sup> February, 2023, if any. The said 3<sup>rd</sup> Interim Dividend shall be credited/ dispatched within 30 days from the date of declaration as per applicable provisions of Companies Act, 2013 to such Shareholders as on record date. The said notice may be accessed on the Company's website at [www.bkt-tires.com](http://www.bkt-tires.com) and also on the Stock Exchanges website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).  
**For Balkrishna Industries Limited**  
**Sd/-**  
**Vipul Shah**  
**Director & Company Secretary & Compliance Officer**  
**DIN. 05199526**  
**Place: Mumbai**  
**Date: 03<sup>rd</sup> February, 2023**



**SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED**  
Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan) CIN : L17124RJ2005PLC020927  
Tel : (07433)222052/82/90, Email: [office@sutlejtextiles.com](mailto:office@sutlejtextiles.com), Website: [www.sutlejtextiles.com](http://www.sutlejtextiles.com)


**EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2022**  
(₹ in Crore)

Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	Year to date Figures for Current Period Ended	Year to date Figures for Previous Period Ended	Previous Accounting Year Ended
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
Total Income from Operations	664.61	819.57	813.21	2330.17	2186.00	3076.46
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(25.75)	49.39	57.54	116.81	155.79	243.53
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(22.60)	49.39	57.54	96.30	155.79	235.72
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(15.56)	31.31	36.52	61.13	98.59	150.23
Total Comprehensive Income for the period [ Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(15.46)	31.89	36.82	62.51	99.31	150.24
Paid-up Equity Share Capital ( Face Value of ₹ 1/- per share )	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38
Other Equity						1083.59
Earnings Per Share before / after extraordinary items (of ₹ 1/- each) (not annualised)						
a) Basic :	(0.95)	1.91	2.23	3.73	6.02	9.17
b) Diluted :	(0.95)	1.91	2.23	3.73	6.02	9.17

**Key information on Standalone Financial Results**  
(₹ in Crore)

Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	Year to date Figures for Current Period Ended	Year to date Figures for Previous Period Ended	Previous Accounting Year Ended
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
Total Income from Operations	655.72	809.95	803.47	2302.97	2160.10	3041.98
Profit/(Loss) Before exceptional items and tax	(23.83)	50.61	59.83	119.26	160.61	248.87
Profit / (Loss) Before Tax	(20.68)	50.61	59.83	98.75	160.61	241.06
Profit / (Loss) After Tax	(13.67)	32.45	38.84	63.49	103.49	155.68
Total Comprehensive Income [Comprising Profit/(Loss)]	(13.82)	32.32	39.01	63.05	103.99	155.07

**Notes:**  
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 2 February 2023 and 3 February 2023.  
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements ) regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for the three months and nine months ended 31 December 2022 are available on Stock Exchanges websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on Company's website [www.sutlejtextiles.com](http://www.sutlejtextiles.com).  
**For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED**  
**(Rajib Mukhopadhyay)**  
**Whole-time Director & CFO**  
**Place : Mumbai**  
**Date : 3 February 2023**




**GEECEE VENTURES LIMITED**  
CIN: L24249MH1984PLC032170  
Regd. Office: 209-210, Arcadia Building, 2<sup>nd</sup> Floor, 195, Nariman Point, Mumbai-400 021.  
Tel. No.: 91-22-4019 8600; Fax No.: 91-22-4019 8650; Email: [geecее.investor@gcvl.in](mailto:geecее.investor@gcvl.in); Website: [www.geecееventures.com](http://www.geecееventures.com)

**EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2022**  
(₹ In Lacs except per share data)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter ended	Nine Months Ended	Quarter Ended	Quarter ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
Total income from operations (net)	724.21	4,754.89	6,730.65	810.73	5,008.80	6,855.31
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	187.37	2,631.77	1,337.81	261.69	2,848.85	1,451.14
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	187.37	2,631.77	1,337.81	261.69	2,848.85	1,451.14
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	158.29	2,159.71	1,016.93	213.16	2,268.23	1,120.82
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	618.95	4,097.92	1,207.19	732.28	4,291.19	1162.70
Equity Share Capital	2,091.17	2,091.17	2,091.17	2,091.17	2,091.17	2,091.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Before Extra - Ordinary items						
1. Basic:	0.76	10.33	4.86	1.02	10.85	5.37
2. Diluted:	0.76	10.33	4.86	1.02	10.85	5.37

**Notes:**  
(a) The above financial results was reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 03<sup>rd</sup> February, 2023 and the same has been approved by the Board of Directors at its meeting held on 03<sup>rd</sup> February, 2023.  
(b) The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment Rules), 2016.  
(c) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for Quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2022 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) or that of National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and also on Company's Website ([www.geecееventures.com](http://www.geecееventures.com)).  
**For GeeCee Ventures Limited**  
**Sd/-**  
**Mr. Sureshkumar Vasudevan Vazhathara Pillai**  
**Whole Time Director**  
**(Din: 00053859)**  
**Place: Mumbai**  
**Date : 03<sup>rd</sup> February, 2023**



**JK TYRE & INDUSTRIES LTD.**

**Net Profit up 24%**

**CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022**  
(₹ in Crores)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)
1	Revenue from Operations	3,612.92	3,756.52	3,076.03	11,012.47
2	Operating Profit (PBIDT)	349.04	305.21	281.40	945.68
3	Net Profit before Tax and Exceptional items	126.86	96.66	81.50	315.13
4	Net Profit before Tax but after Exceptional items	112.73	73.56	88.16	243.40
5	Net Profit after Tax and Exceptional items	66.75	49.61	53.92	151.49
6	Total Comprehensive Income [comprising Profit for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	101.97	61.13	51.59	208.42
7	Equity Share Capital	49.25	49.25	49.25	49.25
8	Other Equity excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of previous year	2,799.06			
9	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) - Basic / Diluted (₹)	2.66	2.08	2.31	6.26

**Notes:**  
\* Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) : (₹ in Crores)


PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended
	31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)
Turnover	2,488.28	2,418.08	2,130.38	7,245.54
Operating Profit (PBIDT)	217.70	180.77	200.94	575.13
Profit before Tax	84.46	47.98	84.15	171.87
Profit after Tax	53.71	36.07	57.91	116.45

Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31.12.2022 can be viewed on websites of the Company, National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. at [www.jktyre.com](http://www.jktyre.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) respectively.

\* Exceptional Item primarily represents unrealised forex loss caused by recent volatility in exchange rates and consequential reinstatement of foreign currency items. It also includes ₹ 1.04 toward VRS expense.

\* The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (URL- [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on website of the Company at [www.jktyre.com](http://www.jktyre.com).

**JK Tyre adjudged 'Best in Class' ESG rating from CareEdge**  
**For JK Tyre & Industries Limited**  
**Chennai**  
**3rd February, 2023**  
**Raghupati Singhania**  
**Chairman & Managing Director**



**ITC Limited**

**Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022**  
(₹ in Crores)


Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 Months ended 31.12.2022	9 Months ended 31.12.2022	Corresponding 3 Months ended 31.12.2021	3 Months ended 31.12.2022	9 Months ended 31.12.2022	Corresponding 3 Months ended 31.12.2021
1	Total Income from Operations	18137.20	54436.51	17616.80	19616.08	58830.76	18787.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	6677.52	18155.61	5492.03	6843.81	19033.11	5580.44
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	6677.52	18155.61	5492.03	6843.81	19033.11	5580.44
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	5031.01	13666.45	4156.20	5080.25	14234.13	4126.73
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4993.75	13823.61	4132.91	5073.75	14297.38	4085.42
6	Equity Share Capital	1241.23	1241.23	1232.26	1241.23	1241.23	1232.26
7	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (not annualised):						
1. Basic (₹):	4.06	11.05	3.37	4.04	11.33	3.29	
2. Diluted (₹):	4.05	11.03	3.37	4.03	11.31	3.29	

**Notes:**  
a) The above is an extract of the detailed format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Unaudited Standalone Financial Results and Segment Results were reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 3rd February, 2023. The full format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website ([www.itcportal.com](http://www.itcportal.com)) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and The Calcutta Stock Exchange Limited ([www.cse-india.com](http://www.cse-india.com)).  
b) The Board of Directors of the Company have declared an Interim Dividend of ₹ 6.00 per Ordinary Share of ₹ 1/- each (2022 - ₹ 5.25 per Ordinary Share). The Record Date fixed for the purpose of determining entitlement of the Members for the Interim Dividend is Wednesday, 15th February, 2023 and such Dividend will be paid between Friday, 3rd March, 2023 and Sunday, 5th March, 2023 to those Members entitled thereto.  
c) The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been completed and the related Reports have been forwarded to the Stock Exchanges. These Reports do not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022 which needs to be explained.










**Registered Office:**  
Virginia House, 37 J.L. Nehru Road, Kolkata 700 071, India









**For and on behalf of the Board**  
**Sd/-**  
**Dated: 3rd February, 2023**  
**Place: New Delhi, India**  
**Director & Chief Financial Officer**  
**Sd/-**  
**Chairman & Managing Director**










Website: [www.itcportal.com](http://www.itcportal.com) | E-mail: [enduringvalue@itc.in](mailto:enduringvalue@itc.in)  
Phone: +91-33-2288 9371 | Fax: +91-33-2288 0655 | CIN: L16005WB1910PLC001985



**ITC**  
**Enduring Value**







**FMCG | Hotels | Paperboards & Packaging | Agri Business | Information Technology**

7095.2023



---